



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, फरवरी 18-फरवरी 24, 2007, शनिवार/माघ 29-फाल्गुन 5, 1928
No. 8] NEW DELHI, FEBRUARY 18-FEBRUARY 24, 2007, SATURDAY/MAGHA 29-PHALGUNA 5, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुश्तक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2007

सा.का.नि. 29.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय अन्वेषक (भाषा) भर्ती नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय अन्वेषक (भाषा) भर्ती (संशोधन) नियम, 2007 होगा।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय अन्वेषक (भाषा) भर्ती नियम, 2001 की अनुसूची में,—

- (1) कालम 11 में दी गई विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पणी : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने अथवा लम्बी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश अथवा अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकती हैं :

- (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; अथवा

- (ii) मूल संवर्ग/विभाग में 5000-8000 रुपये के वेतनमान के पद अथवा समकक्ष पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण की हो; और

(ख) कालम 8 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

(2) कालम 13 में दी गई विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“समूह ‘ख’ विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने हेतु) :

- | | |
|--|----------|
| 1. भारत के महारजिस्ट्रार | —अध्यक्ष |
| 2. भारत के अपर महारजिस्ट्रार/भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार | —सदस्य |
| 3. उप निदेशक (प्रशासन) | —सदस्य” |

[फा. सं. ए-16011/2/2000-प्रशा.-II]

डी.एस. सैनी, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 3 मार्च, 2001 के सा.का.नि. 166 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में दिनांक 2 नवम्बर, 2002, के सा.का.नि. 438 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 12th February, 2007

G.S.R. 29.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Registrar General, India Investigator (Language) Recruitment Rules, 2001, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India Investigator (Language) Recruitment (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Office of the Registrar General, India Investigator (Language) Recruitment Rules, 2001,—

in column 11, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“By direct recruitment

Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 5000—8000 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.”;

(2) in column 13, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“Group ‘B’ Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Registrar General, India | —Chairman |
| 2. Additional Registrar General, India/Joint Registrar General, India | —Member |
| 3. Deputy Director (Administration) | —Member”. |

[F. No. A-16011/2/2002-Ad. II]

D. S. SAINI, Under Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 166, dated the 3rd March, 2001 and subsequently amended vide number G.S.R. 438, dated the 2nd November, 2002.

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2007

सा.का.नि. 30.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन, लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान में ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (जीव विज्ञान), ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (विस्फोटक), ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (स्वापक पदार्थ) और ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (भौतिक विज्ञान) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (जीव विज्ञान), ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (विस्फोटक), ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (स्वापक पदार्थ), और ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (भौतिक विज्ञान), (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (जीव विज्ञान)	1*(2007) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", 9000 रु. अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	5500-175-	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
30 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण 1 : (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान या जीव-भौतिक मानवशास्त्र या सूक्ष्म जीव विज्ञान या मानव आनुवंशिकी विज्ञान या विधि विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य। (ii) अनुसंधान विश्लेषण या संबद्ध विषय में शिक्षण या किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला या किसी मान्यताप्राप्त वैज्ञानिक प्रयोगशाला में विश्लेषणात्मक कार्य का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		
11	12		
प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक सविदा भी है) या आमेलन द्वारा, जिनके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) या आमेलन : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000—8000 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर नियमित आधार पर उन पदों पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4500—7000 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर नियमित आधार पर उन पदों पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; और (ख) जिसके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।		

12

टिप्पण :- केवल केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी आमेलन के आधार पर भर्ती पर विचार करने के लिए अर्हित होंगे। [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन सविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :-

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) या आमेलन पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान -अध्यक्ष
2. अपर निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान -सदस्य
3. सहायक निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान -सदस्य

1	2	3	4	5	6
ज्येष्ठ विज्ञानिक सहायक (स्वापक पदार्थ)	1*(2007) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", 9000 रु. अराज्यपत्रित, (अननुसचिवीय)	5500-175-	लागू नहीं होता	नहीं

7

8

9

10

30 वर्ष से अधिक नहीं

टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।
टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव-रसायन या विधि विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य।
 - (ii) अनुसंधान विश्लेषण या संबद्ध विषय में शिक्षण या किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला या किसी मान्यताप्राप्त वैज्ञानिक प्रयोगशाला में विश्लेषणात्मक कार्य का एक वर्ष का अनुभव।
- टिप्पण 1 :-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित

लागू नहीं होता

सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष

7	8
<p>द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p>जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>
11	12
<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) या आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक सविदा भी है) या आमेलन : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-8000 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर नियमित आधार पर उन पदों पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4500-7000 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर नियमित आधार पर उन पदों पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; और (ख) जिसके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।</p> <p>टिप्पण : केवल केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी आमेलन के आधार पर भर्ती पर विचार करने के लिए अर्हित होंगे।</p> <p>[प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]</p>
13	14
<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान —अध्यक्ष 2. अपर निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान —सदस्य 3. सहायक निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान —सदस्य 	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) या आमेलन पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

1	2	3	4	5	6
ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (विस्फोटक)	1*(2007) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	5500-175-9000 रु.	लागू नहीं होता	नहीं
7	8	9	10		
30 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष		
टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या विधि विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य।				
टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(ii) अनुसंधान विश्लेषण या संबद्ध विषय में शिक्षण या किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला या किसी मान्यताप्राप्त वैज्ञानिक प्रयोगशाला में विश्लेषणात्मक कार्य का एक वर्ष का अनुभव।				
	टिप्पण 1—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।				
	टिप्पण 2—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।				
11	12				
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) या आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) या आमेलन : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी—				
	(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या				
	(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-8000 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर नियमित आधार पर उन पदों पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; या				
	(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4500-7000 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर नियमित आधार पर उन पदों पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; और				

12

(ख) जिसके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

टिप्पण : केवल केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी आमेलन के आधार पर भर्ती पर विचार करने के लिए अर्हित होंगे।

[प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालीन सविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

13

14

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

1. निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान —अध्यक्ष
2. अपर निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान —सदस्य
3. सहायक निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान —सदस्य

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) या आमेलन पर किसी अधिकारी को नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
ज्येष्ठ विज्ञानिक सहायक (भौतिक विज्ञान)	1*(2007) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" 9000 रु. अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	5500-175-	लागू नहीं होता	नहीं

7	8	9	10
30 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष
टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान या विधि विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य।		
टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल	(ii) अनुसंधान विश्लेषण या संबद्ध विषय में शिक्षण या किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला या किसी मान्यताप्राप्त वैज्ञानिक प्रयोगशाला में विश्लेषणात्मक कार्य का एक वर्ष का अनुभव।		
	टिप्पण 1— अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		

7

प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

8

टिप्पण 2—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

11

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) या आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) या आमेलन : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी—

- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-8000 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर नियमित आधार पर उन पदों पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4500-7000 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर नियमित आधार पर उन पदों पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; और
- (ख) जिसके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

टिप्पण : केवल केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी आमेलन के आधार पर भर्ती पर विचार करने के लिए अर्हित होंगे।

[प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

13

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

1. निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान —अध्यक्ष
2. अपर निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान —सदस्य
3. सहायक निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान —सदस्य

14

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) या आमेलन पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 4/1/2006-लो.ना.ज.ना. रा.अ.वि.वि.सं./पी.एम. II]
रमन मेहरा, अवर सचिव

4404867-3

New Delhi, the 20th February, 2007

G.S.R. 30.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Senior Scientific Assistant (Biology), Senior Scientific Assistant (Explosives), Senior Scientific Assistant (Narcotics) and Senior Scientific Assistant (Physics) in the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science under the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Senior Scientific Assistant (Biology, Explosives, Narcotics and Physics) (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that these are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, be order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the scheduled castes, the scheduled tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether the benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Senior Scientific Assistant (Biology)	01* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 5500-175-9000	Not applicable	No

Age limits for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
<p>Not exceeding 30 years</p> <p>Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p>Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.</p>	<p>Essential :</p> <p>(i) Master's Degree in Zoology or Botany or Bio-Chemistry or Physical Anthropology or Micro-Biology or Human Genetics or Forensic Science from a recognized university or equivalent.</p> <p>(ii) One year's experience of research analysis or teaching in the subject concerned or analytical work in a Forensic Science Laboratory or a recognized scientific laboratory.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of the selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	Not applicable	Two years for direct recruits.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
Deputation (including short-term contract) or absorption failing which by direct recruitment.	<p>Deputation (including short term contract) or absorption :</p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Governments or Statutory or autonomous organizations :—</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale or pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre or department ; or</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :</p> <p>1. Director Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science (Ministry of Home Affairs) —Chairman</p> <p>2. Additional Director Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science (Ministry of Home Affairs) —Member</p>	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract) or absorption.

12			13		
<p>(iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 4500-7000 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.</p> <p>Note : Only officers of Central Government or State Government or Union Territories are eligible to be considered for appointment on absorption basis.</p> <p>[Period of deputation (including short-term contract) including period of Deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications].</p>			<p>3. Assistant Director Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science (Ministry of Home Affairs) Member</p>		
1	2	3	4	5	6
Senior Scientific Assistant (Narcotics)	01* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Not applicable	No
7	8			9	10
<p>Not exceeding 30 years</p> <p>Note 1 : Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p>Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>Essential :</p> <p>(i) Master's Degree in Chemistry or Bio-Chemistry or Forensic Science from a recognized university or equivalent.</p> <p>(ii) One year's experience of research analysis or teaching in the subject concerned or analytical work in a Forensic Science Laboratory or a recognized scientific laboratory.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in case of candidates belonging to the</p>			Not applicable	Two years for direct recruits

Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of the selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

11	12	13	14
Deputation (including short-term contract) or absorption failing which by direct recruitment.	<p>Deputation (including short-term contract) or absorption : Officers under the Central Government or State Govts. or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Governments or Statutory or autonomous organizations :—</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre or department ; or</p> <p>(iii) With six year's service in posts in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 4500-7000 or equivalent in the parent cadre or department ; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.</p> <p>Note : Only officers of Central Govt. or State Govts. or Union Territories are eligible to be considered for appointment on absorption basis.</p> <p>[Period of deputation (including short-term contract) including period of Deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications].</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :—</p> <p>1. Director, Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science (Ministry of Home Affairs) —Chairman</p> <p>2. Additional Director, Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science (Ministry of Home Affairs) —Member</p> <p>3. Assistant Director, Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science (Ministry of Home Affairs) —Member,</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract) or absorption</p>

1	2	3	4	5	6
Senior Scientific Assistant (Explosives)	01* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 5500-175-9000	Not applicable	No
7	8	9	10		
Not exceeding 30 years Note 1: Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government. Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.	Essential : (i) Master's Degree in Chemistry or Forensic Science from a recognized university or equivalent. (ii) One year's experience of research analysis or teaching in the subject concerned or analytical work in a Forensic Science Laboratory or a recognized scientific laboratory. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is/are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of the selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits.		
11	12	13	14		
Deputation (including short-term contract) or absorption failing which by direct recruitment.	Deputation (including short-term contract) or absorption : Officers under the Central Government or State Govts. or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Governments or Statutory or autonomous organizations :— (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre or department ; or	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :— 1. Director, Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science (Ministry of Home Affairs) —Chairman, 2. Additional Director, Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science (Ministry of Home Affairs) —Member,	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointing an officer on deputation (including short-term contract) or absorption		

12	13
<p>(iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 4500-7000 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.</p> <p>Note : Only officers of Central Government or State Government Union Territories are eligible to be considered for appointment on absorption basis.</p> <p>[Period of deputation (including short-term contract) including period of Deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications].</p>	<p>3. Assistant Director, Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science (Ministry of Home Affairs) —Member.</p>

1	2	3	4	5	6
Senior Scientific Assistant (Physics)	01* (2007) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 5500-175-9000	Not applicable	No

7	8	9	10
<p>Not exceeding 30 years</p> <p>Note 1 : Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government.</p> <p>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,</p>	<p>Essential :</p> <p>(i) Master's Degree in Physics or Forensic Science from a recognized university or equivalent.</p> <p>(ii) One year's experience of research analysis or teaching in the subject concerned or analytical work in a Forensic Science Laboratory or a recognized scientific laboratory.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualifications regarding experience is or are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and</p>	Not applicable	Two years for direct recruits.

7	8
Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Scheduled Tribes, if at any stage of the selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

11	12	13	14
Deputation (including short-term contract) or absorption failing which by direct recruitment.	<p>Deputation (including short-term contract) or absorption :</p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Governments or Statutory or autonomous organizations :—</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale or pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre or department ; or</p> <p>(iii) with six year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 4500-7000 or equivalent in the parent cadre or department ; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.</p> <p>Note : Only officers of Central Government or State Government or Union Territories are eligible to be considered for appointment on absorption basis.</p> <p>[Period of deputation (including short-term contract) including period of Deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications].</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—</p> <p>1. Director Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science (Ministry of Home Affairs) —Chairman</p> <p>2. Additional Director Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science (Ministry of Home Affairs) —Member</p> <p>3. Assistant Director Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science (Ministry of Home Affairs) —Member</p>	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract) or absorption.

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2007

सा.का.नि. 31.— भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण-अधिनियम, 1985 (1985 के अधिनियम सं. 82) की धारा 34 द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, केन्द्रीय सरकार, नीचे दर्शाए जा रहे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण-नियम, 1986 में एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. इन नियमों का नाम भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2007 है;
2. ये नियम, सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण-नियम, 1986 में, नियम 25 में "पन्द्रह करोड़ रुपये" शब्दों को "पच्चीस करोड़ रुपये" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. एल-11020/1/2006-आई डब्ल्यू टी]

सुभाष चन्द, अवर सचिव

टिप्पणी : उपर्युक्त मूल नियम, भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 10 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 1275 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :-

- (i) दिनांक 22-5-1992 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 551 (अ)
- (ii) दिनांक 31-7-2000 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 311
- (iii) दिनांक 12-12-2000 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 514
- (iv) दिनांक 10-10-2002 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 449

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

New Delhi, the 21st February, 2007

G.S.R. 31.—In exercise of the powers conferred by Section 34 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Central Government hereby makes the following amendments in the Inland Waterways Authority of India Rules, 1986, namely :—

1. These Rules may be called as the Inland Waterways Authority of India (Amendment) Rules, 2007;
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Inland Waterways Authority of India Rules, 1986, in rule 25, for the words "fifteen crores of rupees" the words "twenty five crores of rupees" shall be substituted.

[F. No. L-11020/1/2006-IWT]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

Note :— The Principal Rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii), Extraordinary vide Notification No. GSR 1275(E) dated the 10th December, 1986 and subsequently amended by :—

- (i) G.S.R. 551(E), dated 22-5-1992
- (ii) G.S.R. 311, dated 31-7-2000
- (iii) G.S.R. 514, dated 12-12-2000
- (iv) G.S.R. 449, dated 10-10-2002

440 GJ/07-5